


শিশুদের জন্য বাইবেলে
উপহার



গিদোন
কে ছোটকা
সেনা



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: Janie Forest
Alastair Paterson

অভিযোজিত: Ruth Klassen


অনুবাদিত: Sonu Rahi

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2025 Bible for Children, Inc.

লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।





यहोसू के मरला के
बाद, इस्राएल के सभे
लोगबन परमेश्वर के
आज्ञा के न मानलन
आउर अपन जीवन से
ओकरा निकास देलन।
परमेश्वर पड़ोसी
मिद्यानिअन से

इस्राएल के फसलबन आउर
घरबन के जला देलन। अब
इस्राएलिन के गुफा
में रहे पड़लई हल।




एगो इस्राली, गिदोन भीर, गेहुम के
फसल के बढ़ाबेला एगो गुप्त जगह
हल। उ एगो बड़का पेड़ के निच्चे,
नुक के फसल आउर अनजबन
के साफ कैलन।
मिद्यानिअन के

ई जगहा के बारे


में पता न हल! बाकी
परमेश्वर अपन दूत भेज के
गिदोन लागी
एगो समाचार
भेजलन।



परमेश्वर चाहऽ हलन कि गिदोन अपन बाबुजी के झूठा देवता
वाला छवि के नस्ट कर के सच्चा परमेश्वर लागी एगो वेदी
बनाबऽ। बाकि गिदोन डरते हलन कि देसवासी उनखा मार
देत, बाकि उ ओही कैलन जोन परमेश्वर उनखा आज्ञा
देलथीन हल।




परमेश्वर ई भी चाहऽ हलथिन कि गिदोन दुष्ट मद्यानिअन के बिरोध में इजराइल के सेना के अगुआई करथिन। बाकि गिदोन डरते हलन। उ परमेश्वर से ख़ास चिन्हा मांगलन जेकरा से पता होबे कि परमेश्वर उनखा जौरे हथन। फिर उ जमीन पर



एगो रोमेदार
भेड़ी के
चमड़ापत्र
रखलन।






“गिदोन
प्रार्थना
कैलन,”
जदी सीत
खाली ऊन

पर गिरे, आउर
बाकि सभे जमीन


सुखल रहे, “त फिन हम जान लेबो, जइसन तूं
कहलऽ हल कि तूं हमर हाँथ से इस्राएल के बचैबऽ।”
बिहने, जमीन सुखल हल, बाकि ऊन भिंगल हल!




गिदोन अबहियो बिस्वास न कैलन।
अब उ चाहऽ हल कि परमेश्वर खाली
जमीन पर सीत गिरैथिन आउर उ
ऊन पर तनिको सा नऽ। अगला सुबह
पहर जमीन भिंगल हल बाकि ऊन
एकदम सुखल हल!



गिदोन 32000 के फौज के जौरे बहारसी निकललन।
परमेश्वर खाली 300 आदमी लागी अनुमति देलन। परमेश्वर
न चाहऽ हलथिन इस्राएल कहे कि हम अपन तागत से
जितली हे। खाली यहोवा ही इस्राएल के एगो मात्र मुक्ति
दाता हथिन।



इ जानते हलथिन की गिदोन अभियो डरल हे, परमेश्वर
चुपके से एगो मिद्यानी सैनिक के अजीब सपना के बारे में
दूसरा के बतैते सुने देलन। सपना में, रोटी के एक पाव
एगो मिद्यानी तम्बू के खिलाफ में ऐलक आउर ओकरा
नस्ट कर देलक।




दूसरा सिपाही डर गेलन। "इ तोगिदोन के तलवार हुई..." उ चीचीऐलन। गिदोन सपना के मतलब सुने के बाद, इ जान गेल अब परमेश्वर उनखा विजय बनावे जा रहलथिन हे।



गिदोन एक रात हमला
करे लागी योजना बनैलन।
उ हरेक सैनिक के एगो
तुरही देलन, आउर भीतरे
मसाल के जौरे खाली घैला
देलन। ओंखनी मिद्यानी
सेना के घेर लेलन।




गिदोन के इशारा के अनुसार, सैनिकबन तुरही बजैलन,
उनखर घैला के तोड़ के मसाल जरा लेलन। ई कैसन हल्ला हे!
सभे भ्रम में डर गेलन आउर मिद्यानीअन उठ के भाग गेलन।



इ महान जीत के बाद इस्राएल के अदमियन ओंखनी पर सासन
करे लागी गिदोन से कहलन। गिदोन कहलन, "हम न बाकि
यहोवा तोहनी पर सासन करथिन।" उ जानऽ हलन कि लोगबन

के जीवन पर
सासन करे
के अधिकार
खली
परमेस्वर
के हे।



गिदोन के छोटका सेना

ঐশ্বররে বাক্য, বাইবেলে থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

न्यायियों 6-8

"তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দিয়ে।"

গীতসংহিতা 119:130






দ্য এন্ড



15



60



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদের তরৈকিরছেন এবং যনি চান আপনিতাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছোঁ, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে
পাঠয়িছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয় স্বর্গে চলে গলেনে! আপনি যদি
যীশুতে বশ্বি়াস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্ষমা চান, তিনি তা
করবনে! তিনি আসবনে এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবনে, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবনে।

যদি আপনি বশ্বি়াস করনে যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রয়ি যীশু, আমি বশ্বি়াস করয়ি আপনিতঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম
মরতে একজন মানুষ হয়ছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়ছেন।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16

